The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

(An ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 and 45001:2018 certified company) CIN: L85110KA1954PLC000759; Website: www.sandurgroup.com

REGISTERED OFFICE

'SATYALAYA', No.266 Ward No.1, Palace Road Sandur - 583 119, Ballari District Karnataka, India

Tel: +91 8395 260301/ 283173-199

Fax: +91 8395 260473





CORPORATE OFFICE

'SANDUR HOUSE', No.9 Bellary Road, Sadashivanagar Bengaluru - 560 080 Karnataka, India Tel: +91 80 4152 0176 - 79 / 4547 3000 Fax: +91 80 4152 0182

22 July 2022

Dear Sir / Madam,

Sub: Announcement under Regulations 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) "LODR" Regulations, 2015

Ref: Company Code: 504918

Pursuant to the provisions of Regulations 30 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, as amended from time to time, please find enclosed herewith the newspaper advertisement for Record Date intimation under Regulation 42 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for determining names of shareholders of the Company eligible to apply for the Rights Equity Shares in the Rights Issue, as published in the following newspapers dated 22 July 2022:

Name of the Newspaper	Language	Edition	
Financial Express	English	English National Daily	
Jansatta	Hindi	Hindi National Daily	
Sanjevani	Kannada	Regional Newspaper	

We request you to kindly take the same on record.

Yours Sincerely,

for The Sandur Manganese & Iron Ores Limited

Bijan Kumar Dash

Company Secretary & Chief Compliance Officer

MINES OFFICE: Deogiri - 583112, Sandur Taluk, Ballari District Tel: +91 8395 271025 / 28 / 29 / 40; Fax: +91 8395 271066

PLANT OFFICE: Metal & Ferroalloy Plant, Vyasankere, Mariyammanahalli - 583 222, Hosapete Taluk, Vijayanagar District
Tel: +91 8394 244450 / 244335

FINANCIAL EXPRESS

HIGHER THAN PRE-PANDEMIC LEVELS

Power demand likely to grow above 6% in FY23

Growth to slow in Q2 and Q3 from a sharp 18.7% in Q1


FE BUREAU New Delhi, July 21

INDIA'S POWER DEMAND may grow by over 6% for the second year in a row in FY23, which is higher than the pre-pandemic levels and the long-period average growth of 5%, Crisil said. The above-average growth trend could continue for two more fiscal years, it added.

During the first quarter of the current fiscal, power demand has already seen a 18.7% on-year growth, in line with economic recovery. Crisil forecasts slower

growth in power demand in the second and third quarters, amid expectations of lower export growth due to rising recession concerns in two of India's top trade partners."The past three decadal trends show power demand tangoes economic cycles. On average, it has grown 100 ba-

Power demand to grow faster than the three-decadal average of 5.2%, second year in a row



sis points slower than gross domestic product (GDP)," it said. The rating agency has forecast India's GDP growth at around 7.3% for the current fiscal year.

In FY22, power demand grew 8.2% over FY21 and around 6.9% above FY20, the pre-pandemic period. This was driven by the commercial and industrial segments, as manufacturing and services activity picked up, Crisil said.Says Hetal Gandhi, director, Crisil Research, "The first

quarter may have accounted for 75% of the expected incremental power demand for this fiscal, with consumption surging across key categories

- agriculture, residential, and C&I. While rising ambient temperatures have propped residential offtake, highprices of diesel has cranked up demand for subsidised power from the farm sector. The upcoming festive season, if robust, will also trigger higher than-expected power demand growth."

After EVs, Murugappa firm to manufacture electronic items

FE BUREAU Chennai, July 21

IDENTIFYING ELECTRONIC **PRODUCTS** and components as a growth vertical, Tube Investments of India (TII), part of the Murugappa group, on Thursday announced acquisition of a controlling stake in Moshine Electronics (MEPL). With this, the company diversifies into the electronics components ecosystem, as part of its decision to foray into newer businesses in medical devices and electronics.

The company has executed share purchase and shareholders'pact to acquire a 76% equity stake in MEPL, which manufactures camera module for mobile phones. The acquisition would be through secondary purchase of shares for a total consideration of about ₹8.64 crore. MEPL has its manufacturing facility in Noida. MAM Arunachalam (known as Arun Murugappan), chairman, TII, said, "Through our acquisition of Moshine Electronics, we have diversified into the electronics components ecosystem which will enable us to fulfil the Atmanir bhar Bharat vision of our country."

TII said that India is a major importer of electronic items and parts, and the recent policy initiatives offering productionlinked incentives and phased manufacturing programmes are expected to boost indigenisation of this growing segment. The company has recently diversified into manufacturing electric vehicles in line with its long-term

Five ports notified for import of pulses

SANDIP DAS New Delhi, July 21

TO MEET DOMESTIC shortfall, the government has notified imports of 0.6 million tonne (MT) of tur and urad annually under bilateral agreements with Myanmar, Mozambique and Malawi, through five ports. According to a notification

issued by the Directorate General Foreign Trade, import of pulses will be allowed through five ports – Mumbai, Tuticorin, Chennai, Kolkata and Hazira. However, all the imports consignments need to have 'certificate of origin' issued by respective countries.

Under the bilateral agreement signed last year, India has committed to import 0.25 MT urad and 0.1 MT annually from Myanmar between

2021-22 and 2025-26. India signed an MoU with Mozambique for import of 0.2 million tonne of tur annually for five years when the retail prices of tur skyrocketed to ₹200 a kg in 2016.

financialexp.epap.in



MAM Arunachalam, chairman of TII

business growth plans and create multiple lines of new business and revenue streams to maintain its growth trajectory.

Expanding its presence in the clean mobility space, the company had formed a 100% subsidiary Tl Clean Mobility (TICMPL) to consolidate and focus on its clean mobility ventures. As a further step, TICMPL has acquired a majority stake in lPLTech Electric in line with its vision to pursue clean mobility.



Hostel Furniture For complete details including last date of submission of e-tenders. please visit IIT Indore website &GeM: https://www.iiti.ac.in/tender कुलसचिव/REGISTRAR

The Sandur Manganese & Iron Ores Limited CIN: L85110KA1954PLC000759 Registered Office: "SATYALAYA" Door No.266 (Old No.80), Ward No. 1, Behind Taluk Office, Sandur - 583 119 Ballari District, Karnataka Corporate Office: "SANDUR HOUSE", No.9, Bellary Road, Sadashivanagar, Bengaluru – 560 080, Karnataka, India Tel No: +91 9448497985; E-Mail ID: secretarial@sandurgroup.com, investors@sandurgroup.com; Website: www.sandurgroup.com

NOTICE OF RECORD DATE

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and approval of the Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company dated 21 July 2022, notice is hereby given that the Record Date for determining names of shareholders of the Company eligible to apply for the Rights Equity Shares in the Rights Issue shall be Wednesday, 27 July 2022.

For The Sandur Manganese & Iron Ores Limited On behalf of the Board of Directors Sd/-Bijan Kumar Dash Date: 21 July 2022

Place:Bangalore **Company Secretary and Compliance Officer**

_		of the Insolvency and Bankruptcy or Corporate Persons) Regulations, 2018
		100000000000000000000000000000000000000
-		T PARTICULARS
1	Name of the corporate debtor	RAJESH BUSINESS & LEISURE HOTELS PRIVATE LIMITI
2	Date of incorporation of corporate debtor	21st October 2005
3	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	Registrar of Companies, Mumbai, under the Companies
4	Corporate identity number / limited liability identification number of corporate debtor	U55100MH2005PTC156935
5	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	Registered Office: 139, Seksaria Chambers, 2nd floor, N.M. Road, Fort, Mumbai, Maharashtra – 400023, India
6	Insolvency commencement date of the corporate debtor	20th April 2022 (received by IRP on 26th April 2022)
7	Date of invitation of revised expression of interest	22nd July 2022
8	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Details can be obtained by sending an email to ip.rblh@in.ey.com and ip.rblhpl@gmail.com for the detailed IEOI and eligibility criteria
9	Norms of ineligibility applicable under	Details can be obtained by sending an email to
×.	section 29A are available at:	ip.rblh@in.ey.com and ip.rblhpl@gmail.com
10	Last date for receipt of expression of	Previous Date: 19th July 2022
	interest	Extended Date: 02nd August 2022
11	Date of issue of provisional list of	Previous Date: 29th July 2022
+0	prospective resolution applicants	Extended Date: 12th August 2022
12	Last date for submission of objections to	Previous Date: 3rd August 2022
40	provisional list	Extended Date: 17th August 2022
13	Date of issue of final list of prospective	Previous Date: 13th August 2022
200	resolution applicants	Extended Date: 27th August 2022
14	Date of issue of information memorandum,	
	evaluation matrix and request for resolution	Extended Date: 17th August 2022
	plans to prospective resolution applicants	
15	Manner of obtaining request for resolution	The Resolution Professional will share the documents
	plan, evaluation matrix, information	through Electronic mail or virtual data room after
	memorandum and further information	verification of KYC, eligibility under section 29A of IBC, 2016 and prequalification criteria, as approved by CoC.
16	Last date for submission of resolution	Previous Date: 2nd September 2022
	plans	Extended Date: 16th September 2022
17	Manner of submitting resolution plans to	By post or by hand delivery in sealed envelope and
57.	resolution professional	through electronic mail at ip.rblh@in.ey.com and ip.rblhpl@gmail.com and as mentioned in the request for resolution plan.
18	Estimated date for submission of	17th October 2022
	resolution plan to the Adjudicating Authority for approval	
19	Name and registration number of the	Mr. Rohit Mehra
	resolution professional	IP Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00799/2017-2018/11374
20	Name, Address and e-email of the	Mr. Rohit Mehra (Address: Tower A 3403, Oberol Woods
	resolution professional, as registered with the Board	Oberoi Garden City, Goregaon East, Mumbai City, Maharashtra, 400063 E-mail ID: rohitmehra@hotmail.com)
21	Address and email to be used for	Address: Tower A 3403, Oberoi Woods, Oberoi Garden
	correspondence with the resolution professional	City, Goregaon East, Mumbai City, Maharashtra, 400063 E-mail ID: ip.rbih@in.ey.com and ip.rbihpl@gmail.com
22	Further Details are available at or with	Can be obtained by sending an email to
288	Date of publication of revised Form G	ip.rblh@in.ey.com and ip.rblhpi@gmail.com 22nd July 2022



Himadri Speciality Chemical Ltd

Registered Office: 23A Netaji Subhas Road, 8th Floor, Suite No. 15, Kolkata - 700 001 Corporate Identity Number: L27106WB1987PLC042756

> Phone: (033) 2230-9953, Fax: (033) 2230-9051 Email: info@himadri.com, Website: www.himadri.com

> > (Rs. in Crores)

Statement of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2022

Sr. No.	Particulars	Three months ended 31.03.2022	Previous Three months ended 31.12.2021	Corresponding Three months ended 31.03.2021 in the previous year	Year ended 31.03.2022	Previous year ended 31.03.2021
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total income	835.69	776.27	568.47	2,798.53	1,693.29
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	26.80	19.41	24.23	79.47	63.98
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	26.80	19.41	24.23	79.47	63.98
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	21.21	16.42	22.73	65.06	46.68
5.	Total Comprehensive Income for the period/year {comprising Net Profit for the period/ year (after tax) and other comprehensive income for the period/ year (after tax)}	53.53	9.52	21.02	101.48	62.25
6.	Paid up Equity Share Capital	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90
7.	Other Equity				1,761.88	1,666.38
8.	Earnings Per Equity Share (before and after extraordinary items) (of Re. 1 each) (refer note 5) Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	0.50 0.50	0.39 0.39	0.54 0.54	1.55 1.55	1.11

- The above audited standalone results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 21 July 2022.
- The standalone figures for the three months ended 31 March 2022 and the corresponding three months ended 31 March 2021 in the previous year as reported in these standalone financial results are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date standalone figures up to the end of the nine months of the relevant financial year. Also the standalone figures up to the third
- The Company has considered the possible risk that may result from the pandemic relating to COVID-19 and expects to recover the carrying amount of all its assets including inventories, receivable, investments and other financial and non-financial assets in the ordinary course of business based on the internal and external information available upto the date of approval of these standalone financial results. The Company is continuously monitoring for any material changes in future economic conditions
- The Board of Directors has recommended a dividend at the rate of Re 0.20 per equity share of Re 1 each (i.e. 20% of face value of equity share) aggregating to Rs 8.38 crores for the year ended 31 March 2022. The payment of dividend is subject to the approval of the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Company. Earnings per share is not annualised for the quarter ended 31 March 2022, 31 December 2021 and 31 March 2021.
- The carbon black expansion project, which had started commercial production in the 4th guarter of 2019-20, was set up under an EPC contract executed by a related party, as approved by the Board of Directors and the shareholders. The Company, during the year ended 31 March 2021 had received final additional claim of Rs 53.02 crores from the EPC contractor for enhancements/additional work which had not been considered in the books of account for the year then ended. Further, the Company had issued final purchase/job orders amounting to Rs 22.32 crores to various third-party contractors for certain works. The Board of Directors, in its meeting held on 22 October 2020, decided to appoint an independent engineering firm and a financial firm to conduct a technical reconciliation and financial reconciliation respectively for examining the justification of these additional claims and purchase/job orders, on which some of the directors had raised concerns. Subsequently, the Company had received the final technical report of the independent engineering firm, dated 20 May 2021 as per which there were some overlap in the scope of the original EPC contract, additional work (not covered under the original scope of work) executed by EPC contractor. The findings of this report were discussed and taken on record by the Audit Committee in its meeting held on 10 June 2021 and the Board of Directors of the Company in its meetings held on 10 June and 22 June 2021. Post receipt and consideration of the technical report, pursuant to its earlier decision of 22 October 2020, the Board of Directors, in its meeting held on 22 June 2021, had approved the appointment of an independent financial firm to carry out the financial reconciliation. The Company has received multiple emails from National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) seeking clarification from the Company regarding a complaint filed by one of the Independent Director of the Company alleging certain irregularities relating to inter-alia the above stated EPC contract, insider trading provisions, compliance with laws and regulations relating to related party

transactions, etc. The Company has submitted its response to NSE and SEBI. There is no regulatory action from NSE and SEBI yet in this regard. The management is of the view that, as detailed response has been submitted to NSE and SEBI, this will not have any significant impact on the financial statements of the current or previous years of the Company Subsequent to the year ended 31 March 2022, the Company has received the financial reconciliation report from the financial consultant. The Board of Directors and Audit committee has considered both the technical and the financial report in tandem and has approved a net additional claim of Rs 39.85 crores, subject to shareholders approval. Necessary accounting adjustments (including depreciation impact of Rs. 1.00 crore) have been made in the financial statements for the current year as adjusting events post balance sheet date. Further, the Directors (including the Independent Director) who had earlier raised concerns relating to the above mentioned EPC contract, have written back to the Company and other relevant authorities (including NSE, SEBI etc.), that they have satisfactorily received necessary responses to all the queries / concerns raised over the past period and therefore have withdrawn their complaints and they do not wish to pursue the same any further. The management believes that with the withdrawal of complaint as well as providing adequate responses

to the authorities, no further action is currently needed and is of the view that the above matters will not have any additional significant impact on the financial statements of the Company. The Company had also received a notice from an adjudicating authority of a dispute between the promoter shareholders/ promoter directors which has been subsequently withdrawn by the petitioner. The promoters shareholders / promoter directors have also entered into family settlement agreement to settle their disputes.

The auditor had qualified their review report in earlier quarters in respect of the above matters which has since been resolved.

The figures of the corresponding previous periods/year have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter and year ended 31 March 2022. The above is an extract of the detailed format of Audited Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations,

2015. The full format of the Audited Standalone Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.

(Rs. in Crores)

Statement of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2022

Sr. No.	Particulars	Three months ended 31.03.2022	Previous Three months ended 31.12.2021	Corresponding Three months ended 31.03.2021 in the previous year	Year ended 31.03.2022	Previous year ended 31.03.2021
		(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1.	Total income	835.68	776.65	568.48	2,798.54	1,693.51
2.	Net Profit for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	21.20	27.29	24.31	78.12	64.57
3.	Net (Loss)/ Profit for the period before tax (after Exceptional\ and/or Extraordinary items)	(3.45)	27.29	24.31	53.47	64.57
4.	Net (Loss)/ Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(9.06)	24.30	22.81	39.05	47.27
5.	Total Comprehensive Income for the period/year {comprising Net Profit for the period/ year (after tax) and other comprehensive income for the period/ year (after tax)}	26.14	15.03	18.96	78.70	63.99
6.	Paid up Equity Share Capital	41.90	41.90	41.90	41.90	41.90
7.	Other Equity				1,825.74	1,751.01
8.	Earnings Per Equity Share (before and after extraordinary items) (of Re. 1 each) (refer note 5) Basic (Rs.) Diluted (Rs.)	(0.17) (0.17)	0.58 0.58	0.55 0.55	0.98 0.98	1.13 1.13

- The above audited consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 21 July 2022.
- The consolidated figures for the three months ended 31 March 2022 and the corresponding three months ended 31 March 2021 in the previous year as reported in these consolidated financial results are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year and the published year to date consolidated figures up to the end of the nine months of the relevant financial year. Also the consolidated figures up to the third quarter had only been reviewed and not subjected to audit.
- The Group has considered the possible risk that may result from the pandemic relating to COVID-19 and expects to recover the carrying amount to all its assets including inventories, receivable, investments and other financial and non-financial assets in the ordinary course of business based on the internal and external information available upto the date of approval of these consolidated financial results. The Group is continuously monitoring for any material changes in future economic conditions.
- 4) The Board of Directors of the Holding Company has recommended a dividend at the rate of Re 0.20 per equity share of Re 1 each (i.e. 20% of face value of equity share) aggregating to Rs 8.38 crores for the year ended. 31 March 2022. The payment of dividend is subject to the approval of the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting of the Holding Company.
- Earnings per share is not annualised for the quarter ended 31 March 2022, 31 December 2021 and 31 March 2021.
- The carbon black expansion project, which had started commercial production in the 4th quarter of 2019-20, was set up under an EPC contract executed by a related party, as approved by the Board of Directors and the shareholders of the Holding Company. The Holding Company, during the year ended 31 March 2021 had received final additional claim of Rs 53.02 crores from the EPC contractor for enhancements/additional work which had not been considered in the books of account for the year then ended. Further, the Holding Company had issued final purchase/job orders amounting to Rs 22.32 crores to various third-party contractors for certain works. The Holding Company's Board of Directors, in its meeting held on 22 October 2020, decided to appoint an independent engineering firm and a financial firm to conduct a technical reconciliation and financial reconciliation respectively for examining the justification of these additional claims and purchase/job orders, on which some of the directors of the Holding Company had raised concerns. Subsequently, the Holding Company had received the final technical report of the independent engineering firm, dated 20 May 2021 as per which there were some overlap in the scope of the original EPC contract, additional work (not covered under the original scope of work) executed by EPC contractor. The findings of this report were discussed and taken on record by the Audit Committee of the Holding Company in its meeting held on 10 June 2021 and the Board of Directors of the Holding Company in its meetings held on 10 June and 22 June 2021. Post receipt and consideration of the technical report, pursuant to its earlier decision of 22 October 2020, the Holding Company's Board of Directors, in its meeting held on 22 June 2021, had approved the appointment of an independent financial firm to carry out the financial reconciliation.

The Holding Company has received multiple emails from National Stock Exchange of India Ltd (NSE) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) seeking clarification from the Holding Company regarding a complaint filed by one of the Independent Director of the Holding Company alleging certain irregularities relating to inter-alia the above stated EPC contract, insider trading provisions, compliance with laws and regulations relating to related party transactions, etc. The Holding Company has submitted its response to NSE and SEBI. There is no regulatory action from NSE and SEBI yet in this regard. The management is of the view that, as detailed response has been submitted to NSE and SEBI, this will not have any significant impact on the financial statements of the current or previous years of the Holding Company.

Subsequent to the year ended 31 March 2022, the Holding Company has received the financial reconciliation report from the financial consultant. The Holding Company's Board of Directors and Audit committee has considered both the technical and the financial report in tandem and has approved a net additional claim of Rs 39.85 crores, subject to shareholders approval. Necessary accounting adjustments (including depreciation impact of Rs. 1.00 crore) have been made in the financial statements for the current year as adjusting events post balance sheet date. Further, the Holding Company's Directors (including the Independent Director) who had earlier raised concerns relating to the above mentioned EPC contract, have written back to the Holding Company and other relevant authorities (including NSE, SEBI etc.), that they have satisfactorily received necessary responses to all the queries / concerns raised over the past period and therefore have withdrawn their complaints and they do not wish to pursue the same any further. The management believes that with the withdrawal of complaint as well as providing adequate responses to the authorities, no further action is currently needed and is of the view that the above matters will not have any additional significant impact on the financial statements

The Holding Company had also received a notice from an adjudicating authority of a dispute between the promoter shareholders/ promoter directors which has been subsequently withdrawn by the petitioner. The promoters shareholders / promoter directors have also entered into family settlement agreement to settle their disputes.

The auditor had qualified their review report in earlier quarters in respect of the above matters which has since been resolved.

- The figures of the corresponding previous periods/year have been regrouped/reclassified, wherever necessary, to conform to the classification for the quarter and year ended 31 March 2022.
- The above is an extract of the detailed format of Audited Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Audited Consolidated Financial Results are available on the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website at www.himadri.com.

On behalf of the Board of Directors

Anurag Choudhary Chairman DIN: 00173934



Registered Address: Tower A 3403, Oberoi Woods, Oberoi Garden City,

IP Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00799/2017-2018/11374

Goregaon East, Mumbai City, Maharashtra, 400063

Date: 22nd July 2022, Place: Mumbai



Place : Kolkata

Dated: 21 July 2022





पुणे निवासी 75 साल बाद पाक में पुश्तैनी घर पहुंची, मोहल्ले वालों ने किया स्वागत

रीना छिब्बर वर्मा 75 साल बाद पाकिस्तान में अपने पुरखों घर पहुंची। वर्मा 90 वर्षीय जब रावलपिंडी स्थित पुश्तैनी घर में पहुंचीं तो वह भाववि''ल हो गईं। उनके मोहल्ले के लोगों ने ढोल बजाकर व फूलों की बरसात कर उनका स्वागत किया। वर्मा ने घर की बालकनी में खड़े होकर गाना गया व वह अपने बचपन को याद

वर्मा जब पाकिस्तान छोड़कर भारत आई थीं तो उनकी उम्र 15 साल थी। पुणे निवासी वर्मा का रावलपिंडी में अपने पैतक घर जाने का सपना तब

साकार हुआ जब पाकिस्तान ने उन्हें तीन महीने का वीजा दिया। वह 16 जुलाई को वाघा-अटारी सीमा से लाहौर पहुंचीं। बुधवार को जब वह प्रेम नवास मोहल्ला पहुँचीं तब मोहल्ले के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। ढोल बजाए गए और उन पर फूल बरसाए गए। वर्मा अपने आप को रोक नहीं पाईं और वह ढोलक की थाप पर

वर्मा अपने पैतृक घर के दूसरे तल पर हर कमरे में गईं और अपनी पुरानी यादें बटोरीं। उन्होंने बालकनी में खड़े होकर गाना गया व वह अपने बचपन को याद कर रो पड़ीं। पाकिस्तानी मीडिया ने गुरुवार को उनके हवाले से लिखा कि



रीना छिब्बर वर्मा ने कहा कि मैं नई पीढी से मिलकर काम करने और चीजें आसान बनाने की अपील करूंगी। मानवता सब चीजों से ऊपर है और सभी धर्म मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। हमारी संस्कृति एक है। हम वही लोग हैं। हम सब एक-दूसरे से मिलना चाहते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे ढूढा और वीजा दिलाने में मदद की जिसके बाद मैं वाघा सीमा के रास्ते रावलिपंडी पहुंची।

उन्हें लगा ही नहीं कि वह दूसरे देश में हैं। वर्मा ने कहा, 'सीमा के दोनों पार रह रहे लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं और हमें एक होकर रहना चाहिए। 'वह बहुत देर तक अपने घर के दरवाजों, दीवारों, शयनकक्ष, आंगन और बैठक को

निहारती रहीं। उन्होंने उन दिनों की अपनी जिंदगी के बारे में बातें कीं। उन्होंने पड़ोसियों को बताया कि वह बचपन में बालकनी में खड़ी होकर गुनगुनाती थीं।

डान अखबार के अनुसार, रीना वर्मा ने दोनों

देशों से वीजा व्यवस्था आसान बनाने की अपील की ताकि लोग बार बार मिल पाए। उन्होंने कहा, 'मैं नई पीढी से मिलकर काम करने और चीजें आसान बनाने की अपील करूंगी।' उन्होंने कहा कि मानवता सब चीजों से ऊपर है और सभी धर्म मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। वर्मा ने कहा कि उनकी उम्र के सभी लोगों की मौत हो चुकी है। उनके पुराने पड़ोसियों के पोते अब उस घर में रहते हैं जहां वह और उनका परिवार रहता था। वो कहती हैं, 'लेकिन दीवारें आज भी वैसी की वैसी हैं।' वह कहती हैं, 'दोस्त और यहां का खाना अभी भी मेरे दिमाग में ताज़ा है। आज भी इन गलियों की महक पुरानी यादें ताजा कर देती है। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में कभी यह वापस आऊंगी। हमारी संस्कृति एक है। हम वही लोग हैं। हम सब एक-दूसरे से मिलना चाहते हैं। एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे ढूंढा और वीजा दिलाने में मदद की जिसके बाद मैं वाघा सीमा के रास्ते रावलपिंडी पहुंची।' रीना वर्मा ने कहा कि केवल एक चीज जिसने उसे दखी किया. वह यह थी कि उनके आठ सदस्यों के परिवार में से कोई भी उनकी खुशी साझा करने के लिए जीवित नहीं है। उन्होंने कहा, 'मैं यह देखकर बहुत खुश हूं कि घर बरकरार है यहां तक कि अलाव अभी भी काम करता है। सर्दियों में छुट्टियों के दौरान हम हीटिंग के लिए इसी में लकड़ी जलाते थे।'

राष्ट्रपति चुने गए विक्रमसिंघे

कोलंबो, २१ जुलाई (भाषा)।



श्रीलंका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने शासन की प्रणाली में बदलाव लाने का देशवासियों से कहा कि वह राजपक्षे परिवार के नहीं

बल्कि जनता के मित्र हैं। अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में मई में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले विक्रमसिंघे ने गुरुवार को राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन पर अब इस नई भूमिका में देश की अर्थव्यवस्था को संभालने, आर्थिक उथल-पथल को दूर करने और एक बंटे हुए देश को फिर से एकजुट करने का सबसे बड़ा दारोमदार है।

विक्रमसिंघे 45 साल से संसद में हैं और उन्हें राजनीतिक हलकों में एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है जो दरदर्शी नीतियों से अर्थव्यवस्था का प्रबंधन कर सकता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद विक्रमिसंघे (73) बुधवार को कोलंबो के सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक गंगाराम मंदिर भी गए थे। गोटबाया राजपक्षे

शपथ ग्रहण समारोह में बिजली गुल होने की जांच होगी

कोलंबो, २१ जुलाई (भाषा)।

श्रीलंकाई संसद परिसर में बिजली गुल होने से राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण बंद हो गया। अधिकारियों ने इस घटना की आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) से जांच कराने का फैसला किया है। वेब पोर्टल 'कोलंबो पेज' की खबर के अनुसार नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान

के देश छोड़कर चले जाने और राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। वह संविधान के अनुसार संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं। विक्रमसिंघे की जीत से फिर स्थिति बिगड सकती है क्योंकि सरकार विरोधी कई प्रदर्शनकारी उन्हें पूर्ववर्ती राजपक्षे सरकार का करीबी मानते हैं। प्रदर्शनकारी देश के मौजूदा संकट के लिए राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार उहराते हैं।

विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के

संसद परिसर में गुरुवार को बिजली गुल होने की जांच सीआईंडी करेगी। विक्रमसिंघे के शपथ ग्रहण समारोह का सरकार द्वारा संचालित चैनल 'रूपवाहिनी' द्वारा सीधा प्रसारण किया जाना था और अन्य टेलीविजन चैनलों द्वारा भी इसका एक साथ प्रसारण किया जाना था। हालांकि राष्ट्रपति के रेड कार्पेट पर संसद परिसर में प्रवेश करने के बाद सीधा प्रसारण बंद हो गया। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समय लगभग 10 मिनट के लिए बिजली बंद हुई थी।

तुरंत बाद सैकड़ों प्रदर्शनकारी जगह जगह एकत्रित हो गए थे।

यह पूछे जाने पर कि विक्रमसिंघे राजपक्षे परिवार से अलग कैसे होंगे क्योंकि वह उनके पुराने मित्र हैं, नए राष्ट्रपति ने कहा, 'मैं राजपक्षे परिवार का पुराना मित्र कैसे हूं ? मैं उनका विरोध करता रहा हूं।' उन्होंने कहा कि मैं राजपक्षे परिवार का मित्र नहीं हूं, मैं जनता का मित्र हूं। मैंने पहले पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगे के साथ काम किया है। वह किसी और पार्टी की थीं और मैं किसी और पार्टी का हूं।

इटली के प्रधानमंत्री द्रागी का इस्तीफा, जल्द होंगे चुनाव

रोम, 21 जुलाई (एपी)।



इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने विश्वास मत में सत्तारूढ़ गठबंधन के मुख्य सहयोगी दलों के हिस्सा नहीं लेने के बाद गुरुवार को पद से इस्तीफा र्दे दिया। उन्होंने अपने

इस्तीफे के जरिए देश में जल्द चुनाव कराए जाने की संभावना का संकेत दिया है। वहीं, इस नाजुक समय में इटली और यूरोप के लिए अनिश्चितता का नया दौर शुरू हो गया है।

द्रागी ने क्विरिनाले पैलेस में सुबह हुई बैठक के दौरान राष्ट्रपति सर्गियो मैत्तरेला को अपना इस्तीफा सौंपा। मैत्तरेला के कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने इस घटनाक्रम के बाद द्रागी सरकार को कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने कहा है। राष्ट्रपति ने पिछले सप्ताह द्रागी का इस्तीफा खारिज कर दिया था। द्रागी की राष्ट्रीय एकता वाली सरकार गुरुवार को उस समय बिखर गई जब दक्षिणपंथी, वामपंथी और

पापुलिस्ट (लोकलुभावन वादे करने वाले) दलों के उनके गठबंधन सहयोगियों ने विधायिका को उसका कार्यकाल पूरा करने देने और कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम के लिए एक साथ आने की प्रधानमंत्री की अपील ठुकरा दी। इसके बजाय मध्य-दक्षिणपंथी दलों फोर्जा इतालिया और लीग और पापुलिस्ट 5-स्टार मूवमेंट ने सीनेट में विश्वास मत का बहिष्कार किया, जो द्रागी की 17 महीने की सरकार के साथ उनका गठबंधन खत्म होने का स्पष्ट संकेत है।

द्रागी ने मैत्तरेला के इस्तीफा देने से पहले संसद के निचले सदन 'चैम्बर आफ डिप्युटीज' में उनसे कहा, ''इस दौरान एक साथ मिलकर किए गए सभी कामों के लिए शक्रिया।' वहीं, इटली के अखबारों ने बढ़ती महंगाई और ऊर्जा की कीमतों से निपटने, यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध और अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए 200 अरब यूरो की यूरोपीय संघ की निधि के शेष हिस्से को हासिल करने के लिए आवश्यक सुधारों को लेकर एक स्वर में अपनी नाराजगी जताई।

बाइडेन कोरोना से संक्रमित मामूली लक्षण उजागर

वाशिंगटन, २१ जुलाई (एपी)।



अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना विषाण से संक्रमित पाए गए हैं। वाइट हाउस की प्रेस सचिव करीन जीन-पियरे ने गुरुवार को बताया कि बाइडेन में कोविड-19 के

बेहद मामूली लक्षण हैं और उन्होंने बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए निर्मित एंटीवायरल दवा पैक्सलोविड लेना शुरू कर दिया है।

बाइडेन वाइट हाउस में ही एकांतवाल में रहेंगे और वहीं से अपने संपूर्ण कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। बाइडेन (79) लगातार वाइट हाउस के सदस्यों के साथ संपर्क में बने हए हैं और पूर्वनियोजित अपनी सभी बैठकों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे।

बाइडेन ने अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले ही फाइजर कंपनी की कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लगवा ली थीं। इसके बाद बाइडन ने सितंबर 2021 में पहली बूस्टर खुराक जबकि मार्च 2022 में टीके की एक अतिरिक्त खुराक ली थी।

डोनबास में भीषण युद्ध के बीच यूक्रेन को और सैन्य सहायता देगा अमेरिका

वाशिंगटन, 21 जुलाई। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने पूर्वी डोनबास में भीषण युद्ध के बीच बुधवार को यूक्रेन को और अधिक राकेट प्रणालियां, गोला बारुद और अन्य सैन्य सहायता देने की

करीब 50 रक्षा नेताओं के साथ डिजिटल बैठक खत्म होने के बाद अमेरिका के रक्षा सचिव लायड आस्टिन ने कहा कि सहयोगियों और साझेदारों को युद्ध खत्म करने के प्रयासों की ओर प्रतिबद्ध रखना कड़ी मेहनत का काम होगा। आस्टिन ने कहा कि हम सैन्य सहायता के लिए दान देने की गति बनाए रखने और तेज करने के लिए कड़ा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 'निकट भविष्य को देखते हुए इस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। हालांकि, यह इस पर निर्भर करेगा कि हमारे सहयोगी और साझेदार कब तक प्रतिबद्ध रहेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि यह सुनिश्चित करना हमेशा कठिन काम होगा कि हम कब तक एकजुट रहें।' बहरहाल, अधिकारियों ने यह बताने से इनकार कर दिया कि यह युद्ध कब तक चल सकता है, लोकिन सेना के जनरल मार्क मिले ने

भारत से रक्षा साझेदारी मजबूत करने पर अमेरिकी सीनेट की समिति का जोर

वाशिंगटन, २१ जुलाई (भाषा)।

अमेरिकी सीनेट की अहम समिति ने भारत के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूत करने और खुफिया जानकारी एकत्रित करने, ड्रोन और चौथी व पांचवीं पीढ़ी के विमानों के क्षेत्र में वृहद सहयोग के जरिए इसे नए स्तर तक ले जाने का मांग की है। सीनेट की शक्तिशाली सशस्त्र सेवा समिति ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब एक सप्ताह पहले प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून (एनडीएए) के तौर पर विधायी संशोधन पारित किया , जिसमें 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस

एक्ट' (सीएएटीएसए) के तहत दंडात्मक प्रतिबंधों से भारत को छूट दी गई है।

एनडीएए अमेरिका का वार्षिक बजट है। सीनेट की सशस्त्र सेवा सिमति ने वित्त वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून का संस्करण बुधवार को पारित किया। इसमें 'भारत के साथ प्रमुख रक्षा साझेदारी बढ़ाने' पर जोर दिया गया है, जिसमें खुफिया जानकारियां एकत्रित करने, ड्रोन और चौथी व पांचवीं पीढी के विमानों के क्षेत्रों में वृहद सहयोग शामिल है। साथ ही इसमें डिपो स्तर पर देखरेख, संयुक्त अनुसंधान व विकास, 5जी और 'ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क्स' (आरएएन), साइबर और

सर्द मौसम में रक्षा क्षमता बढ़ाने में सहयोग भी शामिल है।

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए सीएएटीएसए प्रतिबंधों से खास छू<mark>ट</mark> दिलाने वाला संशोधित विधेयक गत सप्ता<mark>र</mark> पारित कर दिया था। भारतीय-अमेरिकी सांस्<mark>र</mark> रो खन्ना द्वारा पेश इस संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए सीएएटीएसए से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया गया है।

'अमेरिकी सेना का मानना है कि पेलोसी का ताइवान की यात्रा ठीक नहीं

वाशिंगटन, 21 जुलाई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का मानना है कि प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी का इस समय ताइवान की यात्रा करना ठीक नहीं है। बाइडेन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की। एक दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि पेलोसी आने वाले हफ्तों में ताइवान यात्रा की अपनी योजना पर आगे बढ़ती हैं, तो चीन दृढ़ व कड़ी कार्रवाई करेगा। (एपी)

The Sandur Manganers & Iron Ores Limited CIN: L85110KA1954PLC000759

CIN: L8511URA1954PLCUUU739

Registered Office: "SATYALAYA" Door No.266 (Old No.80), Ward No. 1, Behind Taluk Office, Sandur - 583 119 Ballari District, Karnataka orporate Office: "SANDUR HOUSE", No.9, Bellary Road, Sadashivanagar, Bengaluru - 560 080, Karnataka, India Tel No: +91 9448497985; E-Mail ID: secretarial@sandurgroup.com, investors@sandurgroup.com; Website: www.sandurgroup.com

NOTICE OF RECORD DATE

Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 and approval of the Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company dated 21 July 2022, notice is hereby given that the Record Date for determining names of shareholders of the Company eligible to apply for the Rights Equity Shares in the Rights Issue shall be Wednesday, 27 July 2022.

> For The Sandur Manganese & Iron Ores Limited On behalf of the Board of Directors

Date: 21 July 2022 Place:Bangalore

Biian Kumar Dash Company Secretary and Compliance Officer

र्गा टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड राव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई—400013 शाखा का पताः 7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, ब्लॉक ई-1, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-11005:

शुद्धिपत्र

यह नोटिस उधारकर्ता स्टूडियो विस्टा एनिमेशंस प्राइवेट लिमिटेड (ऋण खाता संख्या 4844779) खिलाफ इस समाचार पत्र में 20/07/2022 को प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में है जिसमें प्रतिभृति .. संपत्ति का विवरण गलत तरीके से प्रकांशित किया गया था। यहां प्रतिभति संपत्तियों का सही विवर नीचे दिया गया है: भृतल, पश्चिमी किनारे पर निर्मित, प्लॉट एनओसी–77 के हिस्से पर 277 वर्ग गर मापक्षेत्र, शिवाजी पार्क ,पंजाबी बाग, नई दिल्ली—27, शिवाजी पार्क, नई दिल्ली— 110027 के तौर प प्रचलित अनुमोदित कालोनी में स्थित 554वर्ग गज मापक्षेत्र तथा भूमि और स्टिल पार्किंग में सर्भ भानपातिक अधिकार एवं शेयर तथा अन्य अधिकार और हिस्सेदारी प्रदान करते हैं। चौहद्दी : उत्तर सड़क, दक्षिणः सी-78, पूर्वः कंपनी भूमि, पश्चिमः सड़क

दिनांकः 22 जुलाई 2022 स्थान : दिल्ली

ह./– प्राधिकृत अधिकारी कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

इंडियन बैंक 🚲 Indian Bank A sentirent

कॉर्पोरेट कार्यालय : संपदा विभाग टेलीफोन: 044-28134618/4305/4401/4498

निविदा आमंत्रण सूचना (ई- टेण्डर)

इंडियन बैंक, लज़ एवेन्यू, रामचंद्रा रोड, मैलापुर, चेन्नै स्थित बैंक कार्यपालकों के आवासीय भवन के प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु आर्किटेक्चरल सलाहकार के चयन के लिए दो बोली प्रणाली (तकनीकी और मूल्य बोली) में ई-निविदा आमंत्रित करता है।

अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.indianbank.in/tenders या https://www.tenderwizard.com/indianbank देखें।

उप महाप्रबंधक (संपदा) ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली,

4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

राहुल असेड़ा सेवा में, 1. राहुल असेड़ा, सी-3/193, उरा तल, ब्लॉक सी-3, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, साथ ही: प्लाट नं. 30, इन्दिरा पार्क उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, साथ ही: कार्यालवः 2442/10, प्रथम तल, गली नं. 10, बेडनपुरा, करोलवाग, नई दिल्ली-110058 प्रतिवादी 1, 2. अमादीत कौर, सी-3/193, 3य तल, ब्लॉक सी-3, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, साथ ही: प्लाट नं. 30, इन्तिर पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059, प्रतिवादी 2, 3. अनुजय मित्तल, निवासी: सी-3/193, 3'1 तल, ब्लॉक-सी-3, जनकपुरी, नः दिल्ली-110058, प्रतिवादी 3.

के लिये आपने विरुद्ध एक मामाना कुछ लिया है तथा सति हिस अधिकरण को संतुष्टि के लिये वह सावित हो चुका है कि आपने सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सुचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है वि 5.09.2022 को 10.30 पूर्वा. में माननीय अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों।

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने रु. 93.44..586/- (रु. तिडानवे लाख चौआलिस हजार पाँच सौ छियासी मात्र) की वसल

(अधिक विदर्भणों के लिये कृपया डीआरटी की वेबसाईट www.ctribunal.gov.in तथा फोन नम्बरः 011-23748473 से सम्पर्क करे। ध्यार रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपरिथति में ही की जायेगी वर्तमान में जारी महामारी की स्थिति के कारण सभी मामलों पर विचार विडिवो कार्कैसिंग के माध्यम से की जायेगी तथा इस उद्देश्य सेः i) राभी अधिवक्ता/वादीगण सिसको webexapplication/software डाउनलोड करें: ii) सुनवाई की अगली तिथि अर्थात् रजिस्ट्राग्रिकवरी अधिकारी-/तथा रिकवरी अधिकारी-II द्वारा विचार की जाने वाली मामलों के लिये मीटिंग आईडी तथा पास्वर्ड डीआरटी के आधिकारिक पोर्टल अर्थात् d02rt.gov.in पर सार्वजनिक सूचना शीर्ष के अंतर्गत

आगामी तिथि के एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी।) किसी प्रकार की आकस्मिकताओं के लिये अधिवक्ता/वादीगण फोन नं. 23748473 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं

III) किसा अन्तर का जाकारमस्त्राज्ञ के रिप्त जावक्साय पादांगण क्षेत्र में. 2574647.5 सेर संबंदित जा मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 18 जुलाई, 2022 को दी गई। अग्रिम जानकारी के लिय प्रतिवादी नीचे वर्णित फोन नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं.

श्री अमित के डार, विद्वान रजिस्टार, डीआस्टी-1, नई दिल्ली फोन नं.: 011-23748473

अधिकरण के आदेश

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे सुनक

लंदन, 21 जुलाई (भाषा)।



ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में अंतिम चरण के प्रचार अभियान को मजबूती देने के लिए पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को दिन-रात कार्य करने का संकल्प जताया। कंजर्वेटिव पार्टी के नेता व ब्रिटिश

प्रधानमंत्री की दौड़ में अब सुनक का मुकाबला पूर्व विदेश मंत्री लिज ट्रस से है। संसद के टोरी सदस्यों में से 137 ने सुनक को समर्थन दिया है जबकि 113

सबसे उम्रदराज नर

पांडा की मौत

दुनिया के सबसे उम्रदराज नर पांडा की

चीन ने 1999 में एन. एन. नाम का यह नर

पांडा और जिया जिया नामक एक मादा पांडा हांगकांग को भेंट किए थे। तभी से यह पांडा

'ओशन पार्क ' में था। जिया जिया की 2016 में 38

साल की आयु में मृत्यु हो गई थी। वह भी उस

समय किसी पार्क में रह रही सबसे अधिक आयु

की पांडा थी। 'ओशन पार्क' ने एन. एन. की मृत्युं

पोंग ने बयान में कहा, 'एन. एन. के साथ हमने

कई बेहतरीन लम्हें बिताए थे और उसके साथ

हमारी कई यादें जुड़ी हैं। उसकी चतुराई और

चंचलता बहुत याद आएगी।' बयान में कहा गया

है, ''एन.एन. ने पूरा जीवन जीया जो 35 साल की

एक सम्मानजनक आयु पर जाकर समाप्त हुआ।

यह आयु मानव के 105 साल के उम्र के बराबर

है।' चीन आमतौर पर 'पांडा कूटनीति' का सहारा

लेता है जिसके तहत यह प्राणी सदभावना के तौर

पर अन्य देशों को भेंट किया जाता है। यह प्राणी

'ओशन पार्क कारपोरेशन' के अध्यक्ष पाउलो

हांगकांग के एक थीम पार्क में 35 साल की उम्र

में मौत हो गई। उसकी कई दिनों से सेहत ठीक नहीं थी। किसी पार्क में रह रहा वह सबसे

हांगकांग, २१ जुलाई (एपी) ।

उम्रदराज नर पांडा था।

पर शोक व्यक्त किया है।

ने ट्रस पर भरोसा जताया है। इस कारण 42 वर्षीय सनक प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे बने हुए हैं। हालांकि, सुनक खेमे को पता है कि उन्हें पिछले सप्ताह से जारी मतदान के हर चरण में बढ़त बनाए रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। सुनक ने कहा, 'मैं देशभर में हमारा संदेश प्रसारित करने के लिए दिन-रात कार्य करूंगा।' ट्रस ने जहां पहले दिन से टैक्स में कटौती करने का वादा किया है, वहीं पूर्व वित्त मंत्री ने महंगाई में कमी को प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया है। हालांकि, दोनों ही उम्मीदवारों ने पूर्व प्रधानमंत्री मार्गेट थैचर के नक्शेकदम पर चलने का दम भरा है।

फार्म नं. आईएनसी–19

सूचना (कम्पनी (गठन) नियम, 2014 के नियम 22 के अनुसरण में) एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 की उप-धारा (4)(ii) के अनुपालन में **मैसर्स विजयवाड़ा एजुकेशन** फा**उंदेग, दा**रा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8(5) के अंतर्गत उसे जारी लाइसेंस के प्रतिसंहरण के लिए क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली को एक आवेदन किया गया है। लाइसेंस के निरस्तीकरण के बाद कम्मनी को अपने नाम में फाउंडेशन' के स्थान पर 'प्राइवेट लिमिटेड' शब्द जोड़कर अपना नाम मैसर्स विजयवाड़ा एजुकेशन फाउंडेशन से मैसर्स विजयवाड़ा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड रखना होगा।

कम्पनी का प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है

भारत या विदेश में शैक्षणिक संस्थानों जैसे रक्तों, जूनियर कॉलेजों, कॉलेजों, बोर्डिंग हाउस, विश्वविद्यालयों, आश्रमों, गुरूकुलों, शिक्षण कक्षाओं, कोचिंग संटर कोचिंग कक्षाओं, प्रेरिटकल प्रिषक्षण कक्षाओं, बोर्डिंग हाउस, एनेस्टिंग सर्विस, प्रयोगशालाओं, हॉस्टलों, विज्ञान एवं गैर विज्ञान स्ट्रीम लीब की सायत, प्रयोगशालाओं, हास्त्या, प्रश्नात प्रयोग पर प्रश्नात प्रम्मात्वन, प्रश्नात वा अप्र स्थापना, बढ़ावा, प्रोत्साहन, उपलब्ध, रखरखाब, आयोजन, सम्पादन, प्रबंध, विनिर्माण, निर्माण, स्थापना, विकास, रिकंडीशन, प्रचावन एवं आयोजन एवं कामसं, आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, कम्पूटसं, ताँ मेडिकल, फार्मेसी, माइनिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, संगीत, नृत्य, कला, खेलकूद, पत्रकारिता, प्रबंधन, सामाजिक कृत्याण, तकनीकी शिक्षा उद्योग एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजएट डिग्री एवं डिप्लोमा जिसे छात्रों द्वारा नियमित रूप से इस तर से प्रदान किया जाता है जैसा कंपनी द्वारा समय-समय पर विकसित किया जा सकता है और ऐसे सभी कार्यकलाप एवं व्यवसाय को करना जो उपरोक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आकस्मिक या आवश्यकत हो सकते हैं।

ऐसे व्यवसाय के लिए परामर्शदाता, सलाहकार, प्रोमोटर्स, साझेदार या सहयोगी के रूप में कार्य करना और भारतीय और / विदेशी विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कोलंजों से संबद्ध, / जुड़ना एवं ऐसे संबद्ध संस्थान की ओर से डिग्री / डिजा आदि प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना और समी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे राज्य / केन्द्रीय प्रशासनिक सेवाओं की प्रवेश परीक्षा. एमबीए प्रवेश जित राज्य के असी जिस्ता राज्य स्वाचित्र करी है। जिस्ता के स्वाचित्र करी है। जो असी स्वाचित्र करी हो जो उपिक्षा, के जिल्ला अरेश परीक्षा, और / या किसी अन्य प्री—एंट्री परीक्षा के लिए सहायक प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन और समर्थन करना और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन के उद्देश्य को हासिल करना।

उचित प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन ऑनलाइन शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान करने एवं कम्प्यूटर विज्ञान, बहु—भाषा पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शैक्षणिक केन्द्रों की स्थापना करना, और व्यक्तित्व विकास एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के व्यवसाय का सम्पादन एवं संचालन करना। प्रस्तावित कंपनी के मसौदा ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम की प्रति आर-10

ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016 में देखी जा सकती है । ग्रान पाक मन, ने इं । देल्ला—110016 में देखा जो सकता है। एतद्वारा सुनुमान दी जाती है कि उन्त आवेदन पर आपति करने वाला कोई भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, निगम या कॉपिरेट निकाय अपनी आपत्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर एक पत्र के रूप में क्षेत्रीय निदेशक, उन्तरी क्षेत्र, बी—2 विग, दूसरा तल, पर्यावरण मवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली—110003 के पास भेज सकता है तथा इसकी एक प्रति आवेदक के पास आर—10, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली—110016 में भी भेजी जानी वाहिए।

कृत्ते विजयवाड़ा एजुकेशन फाउंडेश अतुल श्रीवास्त

41.55 लाख की नकदी बरामद, भारतीय गिरफ्तार

काठमांडो, २१ जुलाई (भाषा)।

नेपाल में 25 वर्षीय भारतीय नागरिक को बिना किसी वैध दस्तावेज के 41.55 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के विशेष दल ने बुधवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। वह भारतीय मुद्रा के स्रोत के संबंध में कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'पुलिस ने 41,55,000 रुपए के बैंक नोट जब्त किए। नेपाल में बिना किसी वैध दस्तावेज के 25,000 रुपए स<mark>्</mark> ज्यादा की नकदी रखना गैरकानूनी है।' उन्होंने बताया कि आरोपी ने मोटरसाइकिल की सीट के नीचे पेटोल टैंक के अंदर ये नोट छिपाए हए थे। पुलिस ने बैंक व वित्तीय संस्थान कानून के तहत आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है।

Integra Essentia Limited (Formerly known as Integra Garments & Textiles Limited)

CIN: L74110DL2007PLC396238 REGD OFF: 902, 9th Floor, Aggarwal Cyber Plaza-1, Netaji Subhash Place,

New Delhi, North West, Delhi,-110034, India

	<u> </u>						
Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022							
			(₹ in Lakl	hs except pe	r share data)		
_		Quarte	r Ended	Year Ended			
Sr. No.	Particulars	30-Jun-22	31-Mar-22	30-Jun-21	31-Mar-22		
140.		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited		
1	Revenue from Operations	5,596.46	5,018.53	-	6,852.54		
2	Other Income	-	0.12	-	8.28		
3	Total Income	5,596.46	5,018.65	-	6,860.82		
4	Total Expenses	5,538.14	4,964.30	9.00	6,751.98		
5	Profit Before Exceptional Items and Tax	58.32	54.35	(9.00)	108.84		
6	Exceptional Items	-	-	-	-		
7	Profit/ (Loss) Before Tax	58.32	54.35	(9.00)	108.84		
8	Tax Expense/(Benefits):						
	i. Current Tax	-	-	-	-		
	ii. Deferred Tax	-	0.01	-	0.01		
	Total Tax Expense (i+ii)	-	0.01	-	0.01		
9	Profit/(Loss) from continuing operations	58.32	54.35	(9.00)	108.83		
10	Profit/(Loss) for the period	58.32	54.35	(9.00)	108.83		
11	Total Comprehensive Income for the period	58.32	54.35	(9.00)	108.83		
12	Earnings per Equity Share of Rs. 1 each, previously 3 each						

Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022 Notes:

1. The standalone financial results of the company have been prepared in accordance with Ind AS prescribed under Section 133 of the Companies Act 2013 (the Act) read with the relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015.

0.04

0.04

0.05

0.05

The above Quarter ended results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on July 20, 2022. The Statutory auditors have carried out Limited Review of the results for the quarter ended June 30, 2022.

. During the quarter under review, the Company has issued 27,66,84,812 fully paid up equity shares of face value of Rs.1 each for cash at a price of Rs. 1.80 per equity share (including a premium of Rs. 0.80 per equity share) agreegating to Rs. 4,980.32 lakhs on a rights basis to the eligible equity shareholders of the company

For and on behalf of Board of Directors Integra Essentia Limited Vishesh Gupta Managing Director

(0.03)

(0.03)

DIN: 00255689

0.10

0.10

नई दिल्ली

-मेल: drtdelhi-dfs@nic.in

विशेष रूप से चीन में पाया जाता है।

डीआईएन : 07935621

Date: July 22, 2022

Place: Delhi

Basic

Diluted

ಬಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ಟ ಬಡವರಾಗಿ ಬದುಕಬಾರದು



ಬೆಂಗಳೂರು,ಜು. 22- ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕವಿ.ಸೋಮಣ್ಣಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣರವರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯುವ ಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಸೋಮಣ್ಣರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸುಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ, ರಾಜ್ಯಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯುವಮುಖಂಡರಾದ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಸೋಮಣ್ಣ, ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಮಂಡಲ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವಿಶ್ವನಾಥಗೌಡ, ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಮುಖಂಡರಾದವೇಣುಗೌಡ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾದ ಹಾಸಿಗೆ, ಬೆಡ್ ಶೀಟ್, ಸೋಪ್,

ಹಣ್ಣುಗಳು ದಿನಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ವಸತಿ ಸಚಿವರಾದ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣರವರು ಮಾತನಾಡಿ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ರಾಮೀಜಿರವರು ಆದರ್ಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ಬಡವರಾಗಿಹುಟ್ಟಿರಬಹುದುಅದರೆ ಬಡವರಾಗಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಹಿಂದುಳಿದಸಮಾಜವನ್ನು ಸಮಾಜದಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿತರಬೇಕು ಅವರ ಸಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಮತ್ತುಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಹಿಂದುಳಿದಕುಟುಂಬಗಳ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣ,ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತಿಯರು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮತು ಹೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಸಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತು.

ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರೆಫರಲ್ ಆಸತ್ತೆಯಿಂದ 500ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ಥಿಯರ ಚಿಕಿತ್ಯೆ,ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸವ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಎಲ್ಲ

ವಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ.ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್

ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ,ವ್ಯಾಯಾಮ ಕೇಂದ್ರಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮತ್ತು ಐ.ಎ.ಎಸ್.ಮತ್ತು ಐ.ಪಿ.ಎಸ್. ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.ಪರಿಸರಉಳಿಸಲು 50ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಉದ್ಯಾನವನನವೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪರಿಹಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರ್ಚನಾ,ಮಾಜಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ವಾಗೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಯುವ ಮುಖಂಡಬಿ.ಎಂ.ರಾಜಪ್ರಕನಕಪುರದ

ರಾಜಣ್ಣರವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಜಕೆ ಸತ್ಯ -ಸಿಎಂ

ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೋನಿಯಾಗಾಂಧಿ ಪರ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿಕೆ ಸತ್ಯ. ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್

ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ

ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು,ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯರು, ಅನುಭವಸ್ತರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ

ಅವರು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ರವರ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರವರ ಹೇಳಿಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಎಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ರಮೇಶ್ಕುಮಾರ್ರವರೇ ಬಾಯ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.



ಇಂದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎಂ.ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ.ಮುಖ್ಯಸಚೇತಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರು ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ,ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿಯೋಗವು ಮುಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ., 24.1 ರಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 28 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೂ ಅನ್ನಯಿಸುವಂತೆ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ

_____ ರಾಷ್ಗಪತಿ ಚುನಾವಣಿ ನಾಲ್ಲು ಶಾಸಕರ ಮತ ತಿರಸ್ಪೃತ ತಿರಸ್ತ ತಗೊಂಡಿರುವ ಮತಗಳು

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 4 ಶಾಸಕರ ಮತಗಳುತಿರಸ್ತ ತವಾಗಿದೆ.ರಾಷ್ಪಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 224 ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಸಂಸದರು ರಾಜ್ಯದ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 4 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ತೃತಗೊಂಡಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಚಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದ 4 ಮತಗಳು ಯಾವುದೇಮತಗಳುತಿರಸ್ವ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ.

ತಿರಸ್ತ ತಗೊಂಡವು. ಎನ್ಡಿಎಅಭ್ಯರ್ಥಿದ್ರೌಪದಿಮುರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು 154 ಮತಗಳು ಬೀಳಬೇಕಿತ್ತು. ಈ 154 ಮತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಮತಗಳು ತಿರಸ್ತ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಶ್ವಂತ್ ಸಿನ್ಲಾ

ಅವರಿಗೆ 70 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು,

ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪ್

ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ಅಥವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರದ್ದೇ

ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರದ ಕಾರಣ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಮತ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಷ್ಟ.

ವರದಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ವರದಿ ಬಳಿಕ

ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನನ್ನು ಅಮಾನತು

ಮಾಡಿ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ

ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ

ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ

ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕು**ಟ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಸ್ಪೆಂ**ಡ್

ಶಿವವೊಗ್ಗ,ಜು.22-ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.ಈ

ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದ ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ದೂರು ನಿವಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಆರ್. ಸೆಲ್ವಮಣಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತೆರಳಿ ಸಂತ್ರಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ

ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾಳೆ ಆಡಿಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ

ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಇಂದು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾವಡಿ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಓದುಗರ ಗಮನಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕಟವಾಗುವ

SESHADRIPURAM EDUCATIONAL TRUST SESHADRIPURAM EVENING PRE - UNIVERSITY COLLEGE 27, Nagappa Street, Seshadripuram, Bengaluru - 560 020 Recognised by Goyt, of Karnataka approved by PUE Boar

<u> ADMISSIONS OPEN 2022 - 23</u> I & II PUC

Commerce - HEBA/CEBA For More Details Contact:

080 - 22955359, 9141709852 Website: www.sepuc.ac.in,

Email: info@sepuc.ac.in

Shanthi Charitable Trust ®

adasapura Main Road, New Thippasandra Post

Direct

2nd year

lateral entry

admissions

to Diploma

for ITI and

PUC science

students

Vignana Nagar, Bengaluru - 560 075. Ph: 25245225, 25246206. Fax: 25245200 ADMISSION FOR 2022-23

Approved by AICTE New Delhi, Affiliated to DTE) Eligibility: SSLC / equivalent Pass with 35 %

3 Year Diploma Courses.

. Computer Science & Engineering.

3. Electronics & Communication Engine . Electrical & Electronics Engineering.

Only Govt Fees **Donation** for merit Students

20% seats reserved for SC/ST students.

Contact for more details Sri. H R Manjunath Prasad

Principal SCT PT Managing Trustee 9448088480 / 9481325452

Web: www.Sctpolytechnic.in

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಟ್ರಸ್ಟ್, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವತಿಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹರಿಕಾರ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಆರ್. ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

60ರ ದಶಕದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಳಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ತಳಸಮುದಾಯದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಧನೆಯ

ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಚಲ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಕಡೆಗಣಿತ ಜನರಿಗೆ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ರಾಸ ತುಂಬುವ ಮಹತ್ತಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರು ದೃಢ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರು.

ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಂತಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದ ಇವರನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರೇ ಶ್ರೀಯುತ ಆರ್ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್.

ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ಮುಂಚೂಣಿಯ ನೇತಾರ, ಎನ್ಜಿ ಇಎಫ್ ಮುಂದಾಳತ್ತ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು.

ಇದೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಲೋಕಮಾನ್ಯತೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರ ದೂರದರ್ಶಿತ್ರದ ಫಲವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುಮಾರು 22 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನದೇಗುಲವಾಗಿದೆ.

ಆರ್. ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ರವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ, ಅವರ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯೋದ್ದೇಶ, ಅವರ ಬದುಕಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಜುಲೈ 24ರಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೇಔಟಿನಶಾವಿಗೆಮಲ್ಲೇಶ್ವರಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ॥ ಡಿ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಮತ್ತುಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನೋತ್ರವ

9ಗಂಟೆಗೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಮಾಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹಾಗೂ

ಆಚರಣೆ ಕಾರ್ನಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಾರ್ನಕ್ರಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾದ ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಡಾ॥ ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವತ್ಥ ನಾರಾಯಣ್, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ॥ ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೋ ಚಾನ್ನಲರ್ ಡಾ॥ ಡಿ. ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದು, ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ದಯಾನಂದ ಸಾಗರ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಚಾನ್ನಲರ್ ಡಾ॥ ಡಿ. ಹೇಮಚಂದ್ರ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಯ್ದೆ: ಜಜೆಪಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ



POLYTECHNIC

Recognised by Govt. of Karnataka & Approved by AICTE

ADMISSIONS FOR 10th PASS or PUC FAIL / PASS

♦ Electrical ♦ Electronics ♦ Civil ♦ Automobile

♦ Computer Science ♦ Mechanical Engineering

PUC Pass Join 2 yrs Diploma Engineering

PUC Fail Join 3 yrs Diploma Engineering

#5, Sunkadakatte, Magadi Road, Hegganahalli Cross, B-91 Call: Secretary-99166 46466 / Principal-9916639466

ತುಮಕೂರು, ಜು. 22- ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್.ಡಿ.ಎ. ಮೈತಿಕೂಟದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ರವಿ ಹೆಬ್ಬಾಕ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡು, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.ಅವರು ಇಂದು ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಸಂಭ್ರವಿಸುವಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.ಒಡಿಸಾ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರಾಗಿ, ಜಾರ್ಖಾಂಡನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ

ಅನುಭವಹೊಂದಿರುವ ದ್ರೌಪ್ರದಿಮುರ್ಮಅವರ ಆಯ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸದರಿಗೂ, ಶಾಸಕರಿಗೂಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ 🏣 ఆ బి నిందిని

ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮುರ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣಾಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಟೂಡಾ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗಣ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂದೀಪಗೌಡ, ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಬಿಕಾ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್, ನಗರ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತರಾಜು, ವಕ್ಕಾರ ಕೆ.ಪಿ.ಮಹೇಶ್, ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ರಮೇಶ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಟೂಡಾ ಸದಸ್ಯ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಜಗದೀಶ್,ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾದ ಬಂಬೂ ಮೋಹನ್, ಹಿಂದುಳಿದ ಮೋರ್ಚಾದ ವೇದಮೂರ್ತಿ,ಟೂಡಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರತಾಪ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ದ್ವೇಷದ ಜ್ವಾಲೆಗೆ 600 ಬಾಳೆ ಗಿಡ ನಾಶ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು. 22- ಶ್ರೀ

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಹಲಸೂರು ಇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ

64ನೇ ಆಡಿಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ

ಕುಣಿಗಲ್, ಜು. 22– ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆರು ನೂರು ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊತ್ತಗೆರೆಹೋಬಳಿಶೆಟ್ಟಿಗೆರೆಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮೃ ಜಗದೀಶ್, ಪುಪ್ಪಲತಾ, ಕುಮಾರ್ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕುಣಿಗಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಎಸ್.ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಎಸ್. ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಡುವುದೆಂದು ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಎನ್ಯಲಾಗಿದೆ.

TOURS CHARDHAM YATRA Rs. 54,500/- only

ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ

10 Nights 11 Days 11 Sep 2022. THAILAND 🚐 **BANGKOK & PATTAYA**

Rs. 45,000/- only 04 Nights 05 Days 15 Jul 22 / 16 Aug 22 **SINGAPORE & MALAYSIA** RS. 95,000/- only 🏸 06 Nights 07 Days 🔻 10 Aug 2022/ 05 Oct 22 SINGAPORE, MALAYSIA & **THAILAND Rs. 1,25,000/** 🖊 10 Nights 11 Days 🔪 25 Aug 22/ 05 Oct 22/ 15 Dec 22


OTHER PACKAGES CONTACT ARMEN **TOURS & TRAVELS PVT LTD** PALACE ROAD, BANGALORE.01

ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾರೆ.





ಸ್ಥಳ: ಗುಜ್ಜ ವೀರಣ್ಣ ರಂಗ ಮಂದಿರ, ಗಾಂಧಿನಗರ



ಶ್ರೀ ಗುರು ಹೊಳೆ ಹುಚ್ಚೇ ಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ,(ರಿ.) ಕಮತಗಿ

ಕುಂಟಕೀಣ ಮಾಕ್ಷಣಾಣ

ಘಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ನಾಟಕ

ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ

ಶುಕ್ರವಾರ ದಿ. 22-7-2022

ಶನಿವಾರ ದಿ. 23-7-2022

ರವಿವಾರ ದಿ. 24-7-2022 ರಂದು ಕೇವಲ 3 ದಿನಗಳು ಮಾತ ಪ್ರತಿ ದಿನ 2 ಆಟಗಳು

ಸನ್ನಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು

NOTICE OF RECORD DATE Pursuant to Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosur Requirements) Regulations, 2015 and approval of the Rights Issue Committee of the Board of Directors of the Company dated 21 July 2022, notice is hereby given that the Record Date for determining names of shareholders of the Company eligible to apply for the Rights Equity Shares in the Rights Issue shall be Wednesday, 27 July 2022.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿರೋಧ

ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಇಂದು

ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಅರವಿಂದ ಕುಮಾರ್

ಅರಳಿರವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಷ್ಟಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

The Sandur Manganese & Irm Ures Limited

CIN: L85110KA1954PLC000759

gistered Office: "SATYALAYA" Door No.266 (Old No.80), Ward No. 1, Behind Taluk Office,
Sandur - 583 119 Ballari District, Karnataka

rate Office: "SANDUR HOUSE", No.9, Bellary Road, Sadashivanagar, Bengaluru - 560 080, Karnataka, India
Tel No: +91 9448497985; E-Mail ID: secretarial @sandurgroup.com, investors@sandurgroup.com;
Website: www.sandurgroup.com

For The Sandur Manganese & Iron Ores Limited On behalf of the Board of Directors

ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರಗುಳೇದ್

|ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆರೋಪಿಯು

ಬಾಣಸವಾಡಿಯು

ಪ್ರದೇಶವೊಂದರಲ್ಲಿ

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ

ಬೈಕ್ ಕಳವು ಮಾಡಿದ

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡು

ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆರೋಪಿಯುಹಿಂದೆ

ನಡೆಸಿದ್ದ 4 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು

ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಯಶವಂತಪುರ

ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ 1 ದ್ರಿಚಕ್ಕ

ವಾಹನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳು

Date: 21 July 2022 Bijan Kumar Dash Place:Bangalore Company Secretary and Compliance Officer

ಬೈಕ್ ಕಟ್ಟನ ಸೆರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಮಾಲು ವಶ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜು.22-ಬಾಣಸವಾಡಿಪೊಲೀಸರುದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಕಳವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಖದೀಮನೊಬ್ಬನನ್ನುಬಂಧಿಸಿ

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಣಿಸಂದ್ರದ ಅಶ್ವತ್ಥ ನಗರದ

4ಲಕ್ಷಮೌಲ್ಯದಮಾಲುಗಳನ್ನು

ಶೇಖ್ ಅರ್ಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅರ್ಬಾಜ್ (25)ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು ಆತನಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 5 ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡುಹೆಚ್ಚಿನತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಪಿ

ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು. ತಿರಂಗ ಅಭಯಾನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಶಾ ಮನವಿ

ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ತವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಿಂದ 15 ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನವದೆಹಲಿ,ಜು. 22 –ಆಜಾದಿ ಕಾ

ಮನೆಗಳಿಂದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುವಂತೆ ಷಾ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಸರಣಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರದ್ಧ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತಿಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ನೀಡಿರುವ 'ಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗ' ಮಾನಸಿಕ,ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು

ನಾಳೆ 23-07-2022 ರಂದು ಶನಿವಾರ ಆಡಿಕೃತಿಕ ಮಹೋತ್ನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ಕ್ಕೆ ಮಹಾ ಅನ್ನದಾನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಸಂಜೆ 6-30 ರಿಂದಿ 9.30ರವರೆಗೆ

ಪೂರ್ಣವೇ ಆದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ, ವಸ್ತುಲೋಪ–ದೋಷ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಾಹೀರಾತುದಾರರೊಡನೆಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಕ್ತೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ಕಲೈಮಾಮಣಿ ಎಸ್.ವೀರಮಣಿ ರಾಜು (ಚೆನ್ನೈ) ವೃಂದದರವರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಹಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ಕಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದು

-ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ವೃದ್ದಾಶ್ರಮ

ಒಮ್ಮೆ ಭೇೞ ಕೂಡಿ

ರಾಮನಗರ ಜಲ್ಲೆ OLD AGE HOME

ARE YOU SEARCHING **FOR OLD AGE HOME** VITH GOOD FACILITY — THEN CONTACT— MURALI'S HOME FOR SENIOR CITIZENS
NEAR BANGALORE

ೂಂ**ಬಿರುವ ವೃದ್ದಾ**ಶ್ರವ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.

ಬಡದಿ ಹೋಬಆ,

98450 27770 96638 07724 ಅಂಗವಿಕಲ ಕಲಾವಿದರಾದ <mark>ರಾಘು ಮೈಸೂರು ಇವರ ಮಗಳಿ</mark> ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದ ಗುಬ್ಬಿವೀರಣ್ಣ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಗಾಂಧೀನಗರ